



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 41]
No. 41]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2007/माघ 5, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2007/MAGHA 5, 1928

योजना आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 52(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (सलाहकार) भर्ती नियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, योजना आयोग में सलाहकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग (सलाहकार) भर्ती नियम, 2007 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद—संख्या, वर्गीकरण और चेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतनमान (4)	चयन, अथवा अचयन पद (5)
<u>सलाहकार</u> 1. कृषि-1 2. शिक्षा-1 3. ऊर्जा-1 4. मूल्यांकन-1 5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-1, 6. उद्योग एवं खनिज-1 7. जल संसाधन-1 8. श्रम, रोजगार एवं जन शक्ति-1 9. परियोजना मूल्यांकन-1 10. परिवहन-1 11. परिसंरक्ष्य योजना-1 12. सामाजिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण-1 13. ग्रामीण विकास-1 14. विकास नीति अनुसंधान-1 15. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी -1 16. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-1 17. पर्यावरण एवं वन-1	17 * (2007)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसर्चितीय । *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	18400-500-22400 रुपए / 22400-525-24500 रुपए ।	लागू नहीं होता ।

-2-

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	<p>50 वर्ष से अधिक नहीं ।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p>	<p>स्तंभ सं. 1 में दर्शाए गए पदों के लिए विहित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं इस अनुसूची के साथ संलग्न उपाबंध में दिए गए हैं ।</p>	<p>आयु : नहीं ।</p> <p>शैक्षणिक अर्हताएं: हाँ ।</p>	<p>सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।</p>	<p>प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) / सीधे भर्ती ।</p>

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(12)

(क) 18400-500-22400 रुपए के लिए :-

I. प्रोन्नति के लिए :

14300-400-18300 रुपए के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय संयुक्त सलाहकारों में से जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है और जिनके पास इन नियमों के उपाबंध में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। "विभागीय संयुक्त सलाहकार" पद से ऐसे संयुक्त सलाहकार अभिप्रेत हैं और जिनमें केवल वे संयुक्त सलाहकार सम्मिलित हैं जो प्रोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं और इसके अन्तर्गत वे संयुक्त सलाहकार सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है।

II. प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) के लिए :

- (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (उनके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों सहित) या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों और अन्य गैर सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से -
 - (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
 - (ii) जिन्होंने 16400-20000 रुपए के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या
 - (iii) जिन्होंने 14300-18300 रुपए के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और
 - (ख) जिनके पास इन नियमों के उपाबंध में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी या तो शीर्ष स्तरीय प्रबंधकीय स्थिति धारण करता हो या ऐसे स्तर पर निरन्तर पांच वर्ष सेवा की हो जो कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में निदेशक के स्तर के तुल्य हो।)

- (2) ऐसे आचार्यों में से जिन्होंने 16400-22400 रुपए के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास इन नियमों के उपाबंध में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(12)....जारी

(ख) 22400-525-24500 रुपए के लिए :-

I. प्रोन्नति के लिए :

18400-500-22400 रुपए के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय सलाहकारों में से जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है और जिनके पास इन नियमों के उपाबंध में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। "विभागीय सलाहकार" पद से ऐसे सलाहकार अभिप्रेत हैं और जिनमें केवल वे सलाहकार सम्मिलित हैं जो प्रोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं और इसके अन्तर्गत वे सलाहकार सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है।

II. प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) के लिए :

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (उनके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों सहित) या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्ती संगठनों और अन्य गैर सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से -

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने 18400-22400 रुपए के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पार इन नियमों के उपाबंध में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी या तो शीर्ष स्तरीय प्रबंधकीय स्थिति धारण करता हो या ऐसे स्तर पर निरन्तर पांच वर्ष सेवा की हो जो कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सलाहकार के स्तर के तुल्य हो)।

टिप्पण (दोनों वेतनमानों अर्थात् 18400-22400 रुपए और 22400-24500 रुपए के लिए लागू)

1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी अर्थात् क्रमशः विभागीय संयुक्त सलाहकार और विभागीय सलाहकार प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार अविभागीय अभ्यर्थी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए, अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

-5-

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(14)	
(13)	
<p>चयन करने के लिए निम्नलिखित समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति होगी -</p>	<p>योग्यता आयोग में सम्बद्ध विषय का भारसाधक सदस्य - अध्यक्ष</p>
<p>1. सचिव या सदस्य-सचिव, योजना आयोग - सदस्य</p>	<p>2. योजना आयोग से बाहर के सदस्य के रूप में तीन ऐसे विशेषज्ञ जो उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित में से नामनिर्दिष्ट किए जाएं : -</p>
<p>सदस्य</p>	<p>(क) संबद्ध सैक्टर से संबंधित मंत्रालय या विभाग का सचिव ;</p>
<p>(ख) किसी मंत्रालय या विभाग या लोक उपक्रम से भारत सरकार के सचिव का प्रास्थिति के समतुल्य व्यक्ति ;</p>	<p>(ग) सुसंगत संस्थाओं में ख्यातिप्राप्त प्राचार्य</p>
<p>टिप्पण - छंदे गए अभ्यर्थियों के साथ व्यक्तिगत विचार-विमर्श करके वास्तविक चयन किया जाएगा और विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।</p>	
<p>पुष्टिकरण के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति होगी -</p>	
<p>1. सचिव या सदस्य- सचिव, योजना आयोग - अध्यक्ष</p>	
<p>2. योजना आयोग में प्रशासन का प्रभावी प्रमुख सलाहकार या ज्येष्ठ सलाहकार या सलाहकार या संयुक्त सचिव - सदस्य</p>	

[फा. सं. ए-12018/2/2006-प्रशासन-1]

को. को. छाबड़ा, अवर सचिव

उपाबंध

(अनुसूची का स्तंभ 8 देखें)

1. सलाहकार (कृषि):**आवश्यक**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या कृषि विज्ञान या कृषि अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) सुसंगत विधाओं में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव परियोजना या कार्यक्रम तैयार करने और उनकी मानीटरी या मूल्यांकन या अंकन करने में होना चाहिए ।

वांछनीय

- (i) कृषि या कृषि विज्ञान या कृषि अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट डिग्री ।
- (ii) कृषि उत्पादन या विकास में जिला या खंड या परियोजना स्तर पर क्षेत्र अनुभव ।
- (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कृषि विकास या विस्तार में परियोजनाओं या स्कीमों की मानीटरी करने का अनुभव ।
- (iv) कृषि क्षेत्र में परियोजना के विकल्प के संबंध में सलाह देने का अनुभव ।

2. सलाहकार (शिक्षा):**आवश्यक :**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री ।
- (ii) अनुसंधान या विकास या योजना या प्रशासन या प्रबन्ध या शिक्षण आदि में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव शिक्षा नीति, योजना या प्रबन्ध से संबंधित होना चाहिए ।

वांछनीय :

- (i) डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी मे मास्टर डिग्री ।
- (ii) शासन या नीति निर्माण या अनुसंधान प्रकाशनों से संबंधित शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा या योजना या वित्त से संबंधित उच्च स्तर पर कार्य करने का अनुभव ।
- (iii) शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना रिपोर्टें या योजना दस्तावेजों में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में अनुभव ।

3. सलाहकार (ऊर्जा) :**आवश्यक**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या प्रबंध में मास्टर डिग्री या विद्युत या खनन या रसायन या यांत्रिक इंजीनियरी डिग्री या रसायन या तेल या पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) सुसंगत क्षेत्रों में में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का ऊर्जा या अनुसंधान या डिजाईन या विकास या योजना या परियोजनाओं का निष्पादन या विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यक्रम या पारेषण या अन्वेषण या पारम्परिक या गैर-पारम्परिक ऊर्जास्रोतों में अनुभव ।

वांछनीय

- (i) सुसंगत विनिर्दिष्ट विषयों में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी मास्टर डिग्री ।
- (ii) विद्युत या उत्पादन या कोयला या लिग्नाइट या पेट्रोलियम के क्षेत्र में दीर्घ कालिक भौतिक और प्राकृतिक योजना की समस्याओं की जानकारी ।
- (iii) तकनीकी या आर्थिक मूल्यांकन, परियोजना या कार्यक्रम मूल्यांकन, उक्त किसी क्षेत्र में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुभव ।
- (iv) विद्युत उत्पादन या पारेषण या पेट्रोलियम या उद्योग या अन्वेषण और पारंपरिक या गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की नवीनतम प्रवृत्ति या गतिविधियों की जानकारी ।

4. सलाहकार (मूल्यांकन):**आवश्यक :**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या कारबार प्रशासन या संक्रिया अनुसंधान विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव आर्थिक अनुसंधान के संचालन या अनुसंधान के मार्गदर्शन या परियोजना मूल्यांकन के अंकन और विश्लेषण में होना चाहिए ।

वांछनीय :

- (i) सुसंगत विनिर्दिष्ट विषय में डाक्टरेट डिग्री ।
- (ii) आधुनिक अनुसंधान पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, नमूना तकनीकी, आर्थिक माड्यूलों का उपयोग, लागत-फायदा विश्लेषण के अनुप्रयोजन आदि का ज्ञान या अनुभव ।
- (iii) प्रकाशनों द्वारा यथा साक्षित सुसंगत क्षेत्रों में अनुभव ।

5. सलाहकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण):**आवश्यक**

- (i) प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता (भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति की अर्हताओं से भिन्न) जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि या औषधि या शल्य चिकित्सा, जन स्वास्थ्य या किसी भी संबद्ध विशिष्टता में डिप्लोमा भी है । तीसरी अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में नियत शर्तें भी पूरी करनी चाहिए ।
- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं या सामुदायिक स्वास्थ्य संगठनों के अधीन समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) जिसमें से जनस्वास्थ्य में सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल या अनुसंधान या शिक्षा या नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए ।

वांछनीय

- (i) संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम प्रवृत्तियों या तकनीकों या उद्घटनाओं या कार्यक्रमों का ज्ञान ।

6. सलाहकार (उद्योग एवं खनिज):**आवश्यक :**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या अर्थशास्त्र या कारबार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में उपाधि ।
- (ii) समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के लिए 18 वर्ष का अनुभव) औद्योगिक विकास या औद्योगिक नीति विश्लेषण या औद्योगिक परियोजनाओं का प्रबन्धन और मूल्यांकन के संवर्धन या नियोजन या औद्योगिक विकास कार्यक्रमण में वृत्तिक या अनुसंधान या शिक्षण या प्रबन्धकीय अनुभव जिसमें से सरकारी या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और / या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर औद्योगिक उपक्रमों और औद्योगिक संवर्धन अभिकरणों में शीर्ष स्तरीय प्रबन्धकीय पदों पर उच्चस्तरीय नीति संबंधी सलाह के पदों पर कम से कम पांच वर्ष से कार्यरत होने चाहिए ।

वांछनीय :

सुसंगत विनिर्दिष्ट विषयों में उपाधि या इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि हो ।

7. सलाहकार (जल संसाधन):**आवश्यक**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या जल या जलसंसाधन इंजीनियरी में डिग्री या सुसंगत विशेषज्ञता के साथ अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) जल संसाधन या जलप्रबंधन या पीने के पानी का प्रदाय के क्षेत्र में अनुसंधान या विकास या योजना या मानीटरी या मूल्यांकन या निष्पादन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव), जिसके अन्तर्गत नदी घाटी परियोजना, जल संसाधन विकास, कमान क्षेत्र विकास, बाढ़ नियंत्रण, जल और अपशिष्ट जल का प्रबन्ध, निकासी, जल प्रदाय, मलवहन, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध आदि भी सम्मिलित हैं ।

वांछनीय

- (i) सुसंगत विनिर्दिष्ट विषयों में इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या अर्थशास्त्र में डाक्टरेट डिग्री ।
- (ii) प्रकाशनो द्वारा यथा साक्ष्य रूप में आलोचनात्मक संवीक्षा, मूल्यांकन रिपोर्ट, अनुसंधान रिपोर्ट आदि तैयार करने का अनुभव ।
- (iii) संबद्ध क्षेत्रों में अद्यतन रुझानों या विकासों का ज्ञान ।

8. सलाहकार (श्रम, रोजगार एवं जन शक्ति):**आवश्यक :**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) श्रम या रोजगार या जनशक्ति क्षेत्र में अनुसंधान या विकास परियोजनाओं के मूल्यांकन या कार्यक्रमों के मूल्यांकन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) पवधारी को श्रम विधियों या समस्याओं से अवगत होना चाहिए, उसे जनसंख्या, सांख्यिकी और रोजगार समस्या पर उसके प्रभाव की जानकारी होना चाहिए और समस्या पर उनका समाधान और युक्ति रोजगार वृद्धि स्कीमों पर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त योजना शैली और नीति विकसित करने की योग्यता होनी चाहिए ।

वांछनीय :

- (i) अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में डाक्टरेट डिग्री ।
- (ii) उस क्षेत्र में प्रकाशित अनुसंधान कार्य ।

9. सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन):**आवश्यक**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या विज्ञान या संक्रिया अनुसंधान या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

- (ii) अनुसंधान या डिजाईन या विकास या परियोजनाओं या कार्यक्रमों के बनाने और उनके मूल्यांकन या अंकन या बृहत् विनिधान वाली परियोजनाओं के विकल्प या कार्यक्रमों में सलाह देने में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) ।

वांछनीय

- (i) सुसंगत विनिर्दिष्ट विषयों में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट या मास्टर डिग्री ।
- (ii) परियोजनाओं या कार्यक्रम अंकन या पुनर्विलोकन या मूल्यांकन या तकनीकियों के क्षेत्र में अद्यतन प्रवृत्तियों और विकासों का ज्ञान ।

10. सलाहकार (परिवहन):

आवश्यक

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या कारबार प्रशासन या परिवहन अध्ययन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) जिसमें कम से कम पांच वर्ष का अनुभव परिवहन अनुसंधान या विकास या योजना या निष्पादन या यातायात या पूर्वानुमान घोषणा या परियोजना तैयार करने या पूर्विक्ता अवधारण आदि में होना चाहिए ।

वांछनीय

- (i) सुसंगत विनिर्दिष्ट विषयों में डाक्टरेट डिग्री अथवा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री ।
- (ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर के परिवहन प्रबन्ध संगठन में अनुभव ।
- (iii) परिवहन की एक से अधिक विधियों से संबंधित प्रबन्ध या योजना बनाने का अनुभव ।
- (iv) संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम प्रवृत्ति या गति का ज्ञान ।

11. सलाहकार (परिप्रेक्ष्य योजना):

आवश्यक

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अर्थमिति या सांख्यिकी या वाणिज्य में (अर्थशास्त्र और सांख्यिकी सहित) संक्रिया अनुसंधान या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य।
- (ii) निम्लिखित में से एक या अधिक में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव)।
 - (क) पूर्वानुमान माड्यूलों के बनाने,
 - (ख) बहु-क्षेत्रीय योजना प्रतिमान पद्धतियों के क्रियान्वयन और संचालन, और
 - (ग) खपत, नियोजन और जनशक्ति विवक्षाओं के आर्थिक रुझानों का मूल्यांकन।
- (iii) ख्यातिप्राप्त वृत्तिक जर्नलों में प्रकाशित कृति का अभिलेख।

वांछनीय

- (i) सुसंगत विनिर्दिष्ट विषयों में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री।
- (ii) बृहत् मेन फ्रैम कम्प्यूटर प्रणालियों पर कार्यक्रमण और कार्य करने की जानकारी।
- (iii) दीर्घ कालीन विकास योजना बनाने के क्षेत्र में जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिमानों का उपयोग करते हुए भौतिक और वित्तीय योजना बनाना भी है, नवीनतम प्रवृत्तियों या गतिविधियों की जानकारी।
- (iv) गरीबी और उपभोग व्यवहार का अध्ययन।

12. सलाहकार (सामाजिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण):

आवश्यक

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः विज्ञान विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

269457-4

- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वशासी संस्थाओं या अंतराष्ट्रीय संगठनों में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या शारीरिक विकलांग, जनजातीय विकास, महिला और बाल विकास आदि के संबंध में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विकास परियोजना या कार्यक्रमों में अनुसंधान या अंकन या योजना या निष्पादन में होना चाहिए।

वांछनीय

- (i) संबंधित विनिर्दिष्ट विषय में डाक्टरेट डिग्री।
- (ii) बहु विधा के क्षेत्रों में परियोजनाओं या कार्यक्रमों के संचालन या आयोजन या मार्गदर्शन या योजना या निष्पादन या अंकन का अनुभव।
- (iii) समाजशास्त्र या मानवशास्त्र या विशेष कार्य में प्रकाशित रचनाओं के साक्ष्य सहित अनुसंधान का अनुभव।

13. सलाहकार (ग्रामीण विकास):

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री।
- (ii) गरीबी उन्मूलन या लोक सहकारिता या पंचायती राज संस्थाओं या ग्रामीण अवसंरचना या ग्रामीण आवास या भूमि सुधारों आदि से संबंधित विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अनुसंधान या अंकन या योजना या निष्पादन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रुपए के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव)।

वांछनीय :

- (i) सुसंगत विनिर्दिष्ट विषय में डाक्टरेट डिग्री।
- (ii) जिला या प्रभाग या परियोजना स्तर पर क्षेत्र अनुभव।
- (iii) उस क्षेत्र में प्रकाशित कार्य का अनुभव।

- (iv) ग्रामीण विकास में अद्यतन सरकारी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या स्कीमों का ज्ञान ।

14. सलाहकार (विकास नीति अनुसंधान):

आवश्यक

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अर्थमिति या सक्रिय अनुसंधान या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री ।
- (ii) सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान और /या अर्थमिति कार्य में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) ।
- (iii) सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या अर्थमिति कार्य की प्रकाशित प्रतिवेदनों या लेखों या अनुसंधान पत्रों का साक्ष्य ।

वांछनीय

- (i) संबंधित विनिर्दिष्ट विषय में डाक्टरेट डिग्री ।
- (ii) नीति विषयक अधिमानतः आर्थिक सिद्धान्त या आर्थिक नीति में विशेषज्ञता से संबंधित उच्च स्तरीय अनुसंधान संगठनों में अनुभव ।

15. सलाहकार (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी):

आवश्यक

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या अर्थशास्त्र या कारबार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में उपाधि या समतुल्य ।
- (ii) समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव), निम्नलिखित क्षेत्रों, अर्थात् ई-शासन, दूरसंचार उद्योग, प्रसारण मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग (हार्डवेयर और साफ्टवेयर), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक उपयोजन, आदि, के एक या अधिक क्षेत्रों से संबंधित नीति के निर्माण, कार्यान्वयन, मानीटरी और वित्त पोषण में अनुभव जिसमें से सरकारी या अन्य पब्लिक संस्थाओं और/ या

पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर औद्योगिक उपक्रमों और औद्योगिक संवर्धन अभिकरणों में शीर्ष स्तरीय प्रबंधकीय पदों पर उच्चस्तरीय नीति संबंधी सलाह के पदों पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

- (iii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में अद्यतन रुझानों और प्रौद्योगिकियों से सुपरिचित।

वांछनीय

- (i) उपरोक्त विषयों में से किसी विषय में डाक्टरेट की उपाधि या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि हो।

16. सलाहकार (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य।
- (ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, योजना और बजट मूल्यांकन या मानिटरी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों या स्कीमों या परियोजनाओं के मूल्यांकन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव)।
- (iii) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अद्यतन प्रवृत्तियों और गतिविधियों का ज्ञान।

वांछनीय :

- (i) सुसंगत विनिर्दिष्ट विषय में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।
- (ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु विधा शाखाओं या सीमान्त क्षेत्रों में अनुसंधान करने या योजना बनाने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं या कार्यक्रमों तथा उनके अंकन या मूल्यांकन करने के क्षेत्र में अनुभव।

17. सलाहकार (पर्यावरण एवं वन):

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या पर्यावरणीय विज्ञान या जैव विज्ञान या कार्बनिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री या वानिकी या पर्यावरण या वन्य प्राणी प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य ।
- (ii) वन या वन्य प्राणी प्रबन्ध या जैव विविधता और पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में योजना प्रक्रिया, योजना कार्यक्रमों या नीतियों का निर्माण या निष्पादन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव)।

वांछनीय :

- (i) सुसंगत विनिर्दिष्ट विषय में डॉक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री ।
- (ii) सरकार में योजना या नीति और बजट बनाने के संबंध में अनुभव ।
- (iii) सुसंगत सैक्टर में अद्यतन प्रवृत्तियों और उद्घटनों का ज्ञान ।
- (iv) सुसंगत विषयों के संबंध में अनुसंधान या प्रकाशित कार्य का साक्ष्य ।

PLANNING COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2007.

G.S.R. 52(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Adviser) Recruitment Rules, 2005 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Adviser in the Planning Commission, namely:—

1. Short title and commencement. —

(1) These rules may be called the Planning Commission (Adviser) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

269 4/1/07-5

2. Number of posts, classification and scale of pay. - The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Columns (5) to (14) of the said Schedule.
4. Disqualification - No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post.	Number of post.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection post or non selection post.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Agriculture-1, 2. Education-1, 3. Energy-1, 4. Evaluation-1, 5. Health and Family Welfare-1, 6. Industries and Minerals-1, 7. Water Resources-1, 8. Labour, Employment and Manpower-1, 9. Project Appraisal-1, 10. Transport-1 11. Perspective Planning-1, 12. Social Justice and Women's Empowerment -1, 13. Rural Development-1, 14. Development Policy Research-1, 15. Information and Communication Technology -1, 16. Science and Technology-1, 17. Environment and Forests -1.	17* (2007) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, 'A' Group Gazetted, Non-Ministerial	Rs.18400-500-22400/ Rs. 22400-525 - 24500	Not applicable	
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 39 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Not exceeding 50 years. [Relaxable for Government servants upto 5 years in	The educational and other qualifications required for the	Age : No Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits only.	By Promotion/ Deputation (including short-term contract) / Direct Recruitment

	accordance with the orders or instructions issued by the Central Government]	posts mentioned in Column No.1 have been mentioned in the Annexure attached to this Schedule.			
	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).				

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, Grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.

(12)

(A) For Rs. 18400-500-22400:-

I. For Promotion:

From amongst Departmental Joint Advisers in the scale of pay of Rs.14300-400-18300 with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing the educational qualifications and experience as prescribed in the Annexure to these Rules. The term "**Departmental Joint Advisers**" means and includes only those Joint Advisers who have been appointed by Promotion or by Direct Recruitment and does not include those appointed on Deputation / Contract basis.

II. For Deputation (including short-term contract) :

(1) From amongst Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations (including their attached and subordinate offices) or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations and other Non-Government Bodies:-

(12) Contd..

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
 (ii) with three years regular service in posts in the pay scale of Rs. 16400-20000 or equivalent; or
 (iii) with five years regular service in posts in the pay scale of Rs. 14300-18300 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed in the Annexure to these Rules.

(Where the employees are governed by Industrial Dearness Allowance, their equivalence will be determined as per the Central Government's instructions. In cases where Central or Industrial Dearness Allowance is not applicable, the officer should be holding either a top-level managerial position or should have put in at least five years continuous service at a level comparable to that of Director in the Central Government in terms of duties and responsibilities).

- (2) From amongst Professors with three years regular service in the scale of Rs. 16400-22400 and possessing the educational qualifications and experience as prescribed in the Annexure to these Rules.

(B) For Rs. 22400-525-24500:-**I. For Promotion:**

From amongst Departmental Advisers in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400 with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing the educational qualifications and experience as prescribed in the Annexure to these Rules. The term "**Departmental Advisers**" means and includes only those Advisers who have been appointed by Promotion or by Direct Recruitment and does not include those appointed on Deputation / Contract basis.

II. For Deputation (including short-term contract) :

From amongst Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations (including their attached and subordinate offices) or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations and other Non-Government Bodies:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
 (ii) with five years regular service in posts in the pay scale of Rs. 18400-22400 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed in the Annexure to these Rules.
 (Where the employees are governed by Industrial Dearness Allowance, their equivalence will be determined as per the Central Government's instructions. In cases where Central or Industrial Dearness Allowance is not applicable, the officer should be holding a top-level managerial position not below the level comparable to that of Joint Secretary in the Central Government in terms of duties and responsibilities continuously for five years).

Note (Applicable for both pay scales i.e. Rs. 18400-22400 and Rs. 22400-24500) :

1. The departmental officers in the feeder category, i.e. Departmental Joint Advisers and Departmental Advisers respectively, shall not be eligible for consideration for appointment on Deputation (including short-term contract). Similarly, non-departmental candidates shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion.

2. Period of Deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
3. The maximum age limit for appointment by deputation / contract shall not be exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications.

If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
<p style="text-align: center;">(13)</p> <p>"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for making selection) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Member-in-charge of concerned subject in the Planning Commission - Chairman (2) Secretary or Member-Secretary, Planning Commission - Member (3) Three experts as Members from outside the Planning Commission to be nominated by the Deputy Chairman, Planning Commission, from among: <ol style="list-style-type: none"> (a) Secretary of Ministry or Department dealing with the sector; (b) Persons equal in status to Secretary to the Government of India from any Ministry or Department or Public Undertakings; (c) Professors of distinction in the relevant institutions. <p>Note : Actual selection will be made by holding a personal talk with the short-listed candidates and approval of Deputy Chairman, Planning Commission and of the Appointments Committee of the Cabinet shall be obtained to the recommendation of the Departmental Promotion Committee.</p> <p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Member-Secretary or Secretary, Planning Commission - Chairman (2) Principal Adviser or Senior Adviser or Adviser or Joint Secretary in-charge of Administration in the Planning Commission - Member" 	<p style="text-align: center;">(14)</p> <p>Not applicable</p>

[F.No. A-12018/2/2006-Adm. I]
K. K. CHHABRA, Under Secy.

ANNEXURE**[See Column 8 of the Schedule]****1. Adviser (Agriculture):****Essential:**

- (i) Masters' Degree in Agriculture or Agricultural Sciences or Agricultural Economics from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in relevant disciplines, out of which at least five years should be in formulation of projects or programmes and their monitoring or evaluation or appraisal.

Desirable:

- (i) Doctorate Degree in Agriculture or Agricultural Sciences or Agricultural Economics.
- (ii) Field experience at district or division or project level in agricultural production or development.
- (iii) Experience of monitoring and evaluation or appraisal of projects or schemes in agricultural development or extension in the Central or State Government.
- (iv) Experience in tendering advice on choice of projects in the field of Agriculture.

2. Adviser (Education):**Essential:**

- (i) Masters' Degree in any subject or a Degree in Engineering from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in research or development or planning or administration or management or teaching etc., out of which at least five years should relate to educational policy, planning or management.

Desirable:

- (i) A Doctorate Degree or a Masters Degree in Engineering.
- (ii) Experience of working at higher levels in educational Institutions dealing with Governance or Policy Making or Research Publications related to Education or Planning or Finance.
- (iii) Experience in preparation of project reports or in techno-economic evaluation of project reports or plan documents in the field of education.

3. Adviser (Energy):**Essential:**

- (i) Master's Degree in Chemistry or Geology or Applied Geology or Management or Degree in Electrical or Mining or Chemical Engineering or Degree in Chemical or Oil or Petroleum Technology from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in relevant fields with at least five years experience in energy research or design or development or planning or execution of projects or programmes in the field of power generation or transmission or exploration or utilization of conventional or non-conventional energy sources.

Desirable:

- (i) Doctorate Degree or Masters Degree in Engineering, in the relevant specified subjects.
- (ii) Familiarity with problems of long-term physical and natural planning in the field of power generation or coal or lignite or petroleum or natural gas or non-conventional energy sources, etc.
- (iii) Experience of techno-economic evaluation, appraisal of projects or programmes, detailed project reports in any of the above fields.
- (iv) Knowledge of latest trends or developments in power generation or transmission or petroleum or industry or exploration and utilization of conventional or non-conventional energy sources.

4. Adviser (Evaluation)**Essential:**

- (i) Masters' Degree in Economics or Statistics or Business Administration or Operations Research from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in conducting or guiding economic research or project evaluation or appraisal and analysis.

Desirable:

- (i) Doctorate Degree in the relevant specified subjects.
- (ii) Knowledge or Experience of modern research methodology, survey method, sampling techniques, use of econometric modules, application of cost benefit analysis, etc.
- (iii) Experience in the relevant field as evidenced by publications.

5. Adviser (Health and Family Welfare):**Essential:**

- (i) A recognized Medical qualification included in the First or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than Licentiate qualifications to the Indian Medical Council Act, 1956) with Post Graduate Degree or Diploma in Medicine or Surgery or Public Health

or any of the allied specialties. Holders of Educational Qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.

- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level under the Central or State Governments, Autonomous Institutions or Community Health Organisations, out of which at least five years should be practical and administrative experience in the field of Community Health Care or Research or Education or Planning and Administration in Public Health.

Desirable:

Knowledge of latest trends or techniques or developments or programmes in the concerned areas.

6. Adviser (Industries and Minerals):

Essential:

- (i) Masters' Degree in any branch of Science or Economics or Business Administration or Degree in any branch of Engineering or Technology from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level professional or research or teaching or managerial experience in promotion or planning or programming of industrial development or industrial policy analysis or management and evaluation of industrial projects out of which at least five years should be in working at high level policy advice positions in Government or International Institutions and or top-level managerial positions in Public or Private Sector Industrial undertakings and Industrial promotion agencies.

Desirable:

Doctorate Degree or Masters Degree in Engineering, in the relevant specified subjects.

7. Adviser (Water Resources):

Essential:

- (i) Degree in Civil or Hydraulic or Water Resources Engineering or Masters Degree in Economics with relevant specialisation from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in research or development or planning or monitoring or evaluation or execution in the field of water resources or water management or drinking water supply including river valley projects, water resources development, command area development, flood control, management of water and waste water, drainage, water supply, sewerage, sanitation, solid-waste management, etc.

269597-7

Desirable:

- (i) Masters Degree in Engineering or Doctorate Degree in Economics, in the relevant specified subjects.
- (ii) Experience of preparing critical reviews, appraisal reports, research reports, etc., as evidenced by publications.
- (iii) Knowledge of latest trends or developments in the concerned field.

8. Adviser (Labour, Employment and Manpower):**Essential:**

- (i) Masters' Degree in Economics or Statistics from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in research or development or planning or evaluation of projects or programmes in the field of labour or employment or manpower sector. The incumbent of the post should be conversant with the labour laws or problems, have knowledge about population statistics and their impact on the employment problem and the ability to evolve suitable plan strategy and policy for successful implementation of employment generation schemes.

Desirable:

- (i) Doctorate Degree in Economics or Statistics
- (ii) Evidence of published research work in the field.

9. Adviser (Project Appraisal):**Essential:**

- (i) Masters' Degree in Economics or Statistics or Science or Operations Research or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in research or design or development or in the formulation of projects or programmes and their evaluation or appraisal or in the advice of choice of projects or programmes involving large investments.

Desirable:

- (i) Doctorate Degree or Masters Degree in Engineering or Technology, in the relevant specified subjects.
- (ii) Knowledge of latest trends and developments in the field of project or programmes appraisal or review or evaluation techniques.

10. Adviser (Transport)**Essential:**

- (i) Masters' Degree in Economics or Business Administration or Transportation Studies or a Degree in Engineering or Technology from a recognized University or equivalent.

- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level of which at least five years experience in transportation research or development or planning or execution or traffic forecasting or project formulation or priority determination etc.

Desirable:

- (i) Doctorate Degree or Masters Degree in Engineering or Technology, in the relevant specified subjects.
- (ii) Experience in Management of a transport organization of State or National level.
- (iii) Experience in management or planning relating to more than one mode of transport.
- (iv) Knowledge of latest trends or developments in concerned areas.

11. Adviser (Perspective Planning):

Essential:

- (i) Masters' Degree in Economics or Econometrics or Statistics or Commerce (With Economics and Statistics) or Operations Research or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in one or more of the following:
 - (a) formulation of forecasting models;
 - (b) implementation and handling of multi-sectoral model systems; and
 - (c) assessment of consumption, employment and manpower implications of economic trends.
- (iii) Record of published work in reputed professional journals.

Desirable:

- (i) Doctorate Degree or Masters Degree in Engineering or Technology, in the relevant specified subjects.
- (ii) Knowledge of programming and working on large main-frame Computer Systems.
- (iii) Knowledge of latest trends or developments in the areas of long-term development planning including physical and financial planning at national or state level.
- (iv) Studies in Poverty and consumption behaviour.

12. Adviser (Social Justice and Women's Empowerment):

Essential:

- (i) Masters' Degree preferably in Social Science from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in the Central or State Governments, Autonomous Institutions or International Organisations with at least five years experience in research or appraisal or planning or execution of development projects or programmes in the field of Social Justice relating to the welfare of Backward Classes or Scheduled Caste or

Scheduled Tribe or Physically Challenged; Tribal Development, Women and Child Development, etc.

Desirable:

- (i) Doctorate Degree in the relevant specified subject.
- (ii) Experience of conducting or organizing or guiding or planning or execution or appraisal of projects or programmes in multi-disciplinary areas.
- (iii) Research experience with evidence of published work in sociology or anthropology or social work.

13. Adviser (Rural Development)

Essential:

- (i) Masters' Degree, preferably in Social Sciences, from a recognized University or equivalent.
- (iii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in research or appraisal or planning or execution of various rural development projects or programmes relating to poverty alleviation or public cooperation or panchayati raj institutions or rural infrastructure or rural housing or land reforms, etc.

Desirable:

- (i) Doctorate Degree in relevant specified subjects.
- (ii) Field experience at district or division or project level.
- (iii) Evidence of published work in the field.
- (iv) Knowledge of latest Government projects or programmes or schemes in Rural Development.

14. Adviser (Development Policy Research)

Essential

- (i) Master's Degree in Economics or Econometrics or Operations Research or Business Administration from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in theoretical and applied economic research and / or econometric work.
- (iii) Evidence of published reports or articles or research papers of theoretical or applied economics or econometric work.

Desirable

- (i) Doctorate Degree in the relevant specified subjects.
- (ii) Experience in high level research organisations dealing with policy issues preferably with specialisation in economic theory or economic policy.

15. Adviser (Information and Communication Technology)**Essential**

- (i) Masters' Degree in any branch of Science or Economics or Business Administration or Degree in any branch of Engineering or Technology from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in policy formulation, implementation, monitoring and financing relating to one or more of the following areas, namely, e-governance, telecom industry, broadcast media, electronics industry (hardware and software), social application of Information and Communication Technology, etc., of which, at least five years should be at senior policy advice levels in the Government or other public institutions and / or top level managerial positions in public or private sector industrial undertakings and industrial promotion agencies.
- (iii) Familiarity with the latest trends and technologies in Information and Communication Technology area.

Desirable

Doctorate Degree in any of the above subjects or Master's Degree in Engineering or Technology.

16. Adviser (Science and Technology)**Essential**

- (i) Master's Degree in Science or Degree in Engineering or Technology, from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in Science and Technology policy, planning and budgeting, evaluation or monitoring or appraisal of Science and Technology programmes or schemes or projects.
- (iii) Knowledge of latest trends of development in Science and Technology both at the National and International level.

Desirable

- (i) Doctorate Degree or Masters' Degree in Engineering, in the relevant specified subjects.
- (ii) Experience of conducting or organizing or guiding or planning research in multi-disciplinary areas or in frontier areas or new emerging areas in science and technology, formulation of Science and Technology Plans or programmes and their appraisal or evaluation.

17. Adviser (Environment and Forests)**Essential**

- (i) Master's Degree in Science or Environmental Science or Bio-Science or Organic Chemistry or Degree in Engineering or Post-Graduate Diploma in Forestry or Environment or Wild-Life Management from a recognized University or equivalent.
- (ii) 15 years' experience for the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (18 years' experience for the scale of pay of Rs.22400-525-24500) at a Group 'A' or equivalent level in planning process, formulation or execution of plan programmes or policies in the field of forest or wild life management or biodiversity and environmental conservation.

Desirable

- (i) Doctorate Degree or Masters' Degree in Engineering, in the relevant specified subject.
- (ii) Experience of dealing with planning or policy and budget formulation in Government.
- (iii) Knowledge of latest trends and developments in the relevant sector.
- (iv) Evidence of Research or Published work on relevant topics.
